



## संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26-11-2021

आज दिनांक 26.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौरस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम पता शिवकुमारी पत्नी राधेश्याम निवासी निहुरी टोला केवटलिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0कां0 धर्मनाथ यादव हमराह म0कां0 सुमन यादव

01 लाख 50 हजार रुपये की अनुमानित कीमत का 07 अदद इमारती साखू की लकड़ी का बोट्टा बरामद

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मोहद्वीपुर में सड़क से नीचे लावारिस हालात में खड़ी काले रंग की सफारी गाड़ी (रजि0नं0 –यू0पी0 43 एच0 9897 ) से 07 अदद इमारती लकड़ी साखू का बोट्टा जिसकी बाजार कीमत करीब 01 लाख 50 हजार रुपये है बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरिष्ठ उ0नि0 श्री राकेश मिश्र, उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, हे0कां0 संतोष पटेल, का0 मनीष , का0 हिमान्शु, का0 बालगोविन्द।



## संतकबीरनगर पुलिस



### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

### पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 3304 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल** – पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मगहर से इवेन्ट संख्या 05501 से मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति ( आजम अली पुत्र मो0 इस्लाम निवासी उतरौला जनपद बलरामपुर ) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** – आ0 रवि पासवान, हो0चा0 चन्द्रसेन ।

### मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनो से 89000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनो से 89000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।